

## वज्जान एव ढरौदुडुगकी नवंबर 2024

डुरशुन 1. डररत सरकर की BioE3 नीतुके डुरडुख ततुतुवुं और उदुदेशुडुं की करुकर कीजुडु। इस नीतुके तहत जैव-डुरौदुडुगकी के कुषेतर डुं कुन-सी डुररथडुकुतुतुएँ नरुधररतु की गइ है? डुडुडुडुडु।

डुरशुन 2. डुहली वैशुवकी कानुनी रूडु से डुधुडुकरी AI संधुके डुहतुतुवु की करुकर कीजुडु। डुह संधुकेसे वैशुवकी सुतर डुर AI के उडुडुग कु नरुडुतरतु करुने और नैतकी डुनकुं कु सुनशुकरतु करुने डुं डुगदुन देगी? डुडुडुडुडु।

डुरशुन 3. कैडनुतु दुवरर इसरु के कंदुरडुन-4, वीनस डुशुन, डुररतीडु अंतुरकुषु सुटेशुन और अगली डुडुडी के लुनुक वुहीकल के लुडु अनुडुदन के डुहतुतुवु कडु वशुलुषण कीजुडु। डुे डुररडुडुनरुतु डुररत के वैजुजुनकी और तकनीकी डुरगतुडुं कैसे डुगदुन दे सकुती है, करुकर कीजुडु।

डुरशुन 4. डुसल डुडु डुगुरह डुं ई-डुरौदुडुगकी के उडुडुग से कुडुडी डुरडुख कुनुतुडुडु कडु है? इनुहें दुर करुने के लुडु कडु उडुडु कडु डु सकुते है? करुकर कीजुडु।

डुरशुन 5. डुरडुणु ऊरुजु कलतु रेलगडुडुडु की अवधररणर डुर करुकर कीजुडु। डुररंडुरकी ऊरुजु सुरुतुं की तुलनर डुं इसके कडु लरडु और कुनुतुडुडु है? डुडुडुडुडु।

